

BSF का स्वच्छ भारत : स्वच्छ हिमालय अभियान , पहुंचा देहरादून

By : INVC Team Published On : 21 Oct, 2015 10:23 AM IST



आई एन वी सी न्यूज़

देहरादून , सीमा सुरक्षा बल ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय' अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली से दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को श्री किरन रिज्जिजू, माननीय केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। सीमा सुरक्षा बल के कुल 45 सदस्यों वाला यह अभियान दल, जिसमें बल के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं अन्य कार्मिक शामिल हैं, श्री राज कुमार नेगी, कमांडेंट, बी0एस0एफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला, देहरादून के नेतृत्व में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। यह अभियान दल दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रूडकी, हरिद्वार, देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के रास्ते उत्तर काशी होते हुए पवित्र धाम गंगोत्री तक का दुर्गम सफर तय करते हुए लोगों में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए वापस दिल्ली में ही समाप्त होगा। दिल्ली से दिनांक 12 अक्टूबर को साइकिल से चला 'स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय' अभियान दल दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को ही मेरठ पहुंचा। अपने सफर के दौरान इस दल ने रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में और शहरों में स्वच्छता के बारे में जनमानस में जागरूकता फैलायी गई। फिर यह अभियान दल साइकिल से ही दिनांक 13 अक्टूबर 2015 को मेरठ से सकौती टांडा, खतौली, मन्सुरपुर और नैवाला होते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को मुजफ्फरनगर पहुंचा। श्री राज कुमार नेगी, कमांडेंट, बी0एस0एफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग डोईवाला, देहरादून ने अभियान टीम के साथ मिलकर जय भारत इन्टर स्कूल छुपार, राजा महेन्द्र प्रताप बालिका जूनियर हाईस्कूल, इन्टर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज नारसन सहित रास्ते में पड़ने वाले अन्य कई स्कूलों के कार्मिकों एवं बच्चों के साथ मिलकर सफाई की तथा पूरे प्रांगण का कचरा एकत्रित कर कूड़ा स्थल पर जलाकर नष्ट किया। इसके उपरान्त उक्त अभियान दल दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को रूडकी से ब्रह्मपुर, बहदुराबाद, रानीपुर तथा रास्ते में पड़ने वाले गांव/शहरों से होते हुए पंतजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव से मिला। फिर यह अभियान दल दिनांक 16 अक्टूबर 2015 को मेला ग्राउण्ड हरिद्वार पहुंचा। अपने इस सफर के दौरान अभियान दल ने बी0एस0एफ रोड शो, फोटो गैलरी और बैंड शो इत्यादि का भी प्रदर्शन किया और के स्थानीय नागरिकों, एन0सी0सी0, स्काउट एंड गाईड्स कैडेट तथा विभिन्न स्कूलों के बच्चों, उनके शिक्षकों और प्रशासन के साथ मिलकर साफ-सफाई भी की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंत्री प्रसाद नथाणी, शिक्षामंत्री उत्तराखण्ड सरकार थे जिन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से उपस्थित सभी जनमानस को भारत एवम् हिमालय के साथ-साथ गंगा को साफ रखने की और पर्यावरण की सुरक्षा करने की अपील की। स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय अभियान का दल स्वच्छता का संदेश लेकर दिनांक 19 अक्टूबर 2015 को हरिद्वार होते हुए परेड ग्राउण्ड, देहरादून पहुंचा। परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बी0एस0एफ के "स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय अभियान" कार्यक्रम के दौरान अभियान दल द्वारा बी0एस0एफ रोड शो किया गया जिसमें बी0एस0एफ फोटो गैलरी के प्रदर्शन का माध्यम से बल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के बैंड की मधुर प्रस्तुतियों ने जनमानस का मन मोह लिया। बी0एस0एफ द्वारा आयोजित इस स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय अभियान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश अग्रवाल, खेलमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार थे।

श्री राज कुमार नेगी, कमांडेंट, बी0एस0एफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून ने अभियान के दौरान स्वच्छता का संदेश देते हुए बताया कि सीमा सुरक्षा बल जिसका अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है और हम निरन्तर इस शानदार विरासत को आगे बढ़ाते रहने का हर संभव प्रयास करते हुए आज हमने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि दुनिया के सामने हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। अभियान दल ने अपने सफर के दौरान सभी स्वयं भी यह शपथ ली और लोगों को भी दिलाई कि -"मैं अपने देश को, अपने देश की नदियों को तथा हिमालय को न तो स्वयं नुकसान पहुंचाउंगा और न ही किसी को पहुंचाने दुंगा।"

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/bsf-का-स्वच्छ-भारत-स्वच्छ-हिम/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com